

एनईआर के लिए अगले दिन और इंटा-डे पूर्वानुमानित मांग की झुटे

दिनांक:

12/1/2024

| तिथि और समय | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग (A) | इंटा-डे पूर्वानुमानित मांग (B) | वास्तविक मांग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की झुटे (D) = (C) - (A) | इंटा-डे की पूर्वानुमानित मांग की झुटे (E) = (C) - (B) |
|-------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---|
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1715 | 1746 | 1698 | 17 | 48 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1683 | 1714 | 1668 | 15 | 46 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1655 | 1685 | 1640 | 15 | 45 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1634 | 1664 | 1618 | 16 | 46 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1615 | 1644 | 1616 | 1 | 29 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1597 | 1626 | 1597 | 1 | 28 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 1591 | 1620 | 1583 | 8 | 37 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 1576 | 1604 | 1564 | 12 | 41 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 1558 | 1586 | 1545 | 13 | 41 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1547 | 1575 | 1539 | 7 | 36 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1537 | 1565 | 1520 | 17 | 45 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1529 | 1556 | 1509 | 19 | 47 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1517 | 1545 | 1491 | 26 | 54 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1508 | 1535 | 1495 | 13 | 40 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1507 | 1534 | 1491 | 16 | 43 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1509 | 1536 | 1496 | 13 | 40 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1514 | 1542 | 1492 | 22 | 49 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 1525 | 1553 | 1507 | 18 | 46 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 1546 | 1574 | 1526 | 20 | 48 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 1572 | 1601 | 1553 | 19 | 48 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 1606 | 1585 | 1574 | 31 | 11 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 1649 | 1628 | 1615 | 34 | 13 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 1702 | 1681 | 1649 | 53 | 32 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 1786 | 1764 | 1727 | 59 | 37 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1889 | 1865 | 1807 | 82 | 59 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1980 | 1985 | 1896 | 84 | 89 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 2097 | 2100 | 1971 | 126 | 130 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 2173 | 2176 | 2073 | 101 | 103 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 2218 | 2133 | 2127 | 92 | 6 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 2243 | 2156 | 2145 | 98 | 11 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 2240 | 2154 | 2169 | 72 | 15 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 2231 | 2145 | 2162 | 69 | 17 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 2217 | 2132 | 2165 | 52 | 33 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 2184 | 2101 | 2150 | 34 | 49 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 2161 | 2079 | 2128 | 32 | 50 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 2128 | 2047 | 2115 | 13 | 67 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 2096 | 2017 | 2069 | 27 | 52 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 2091 | 2012 | 2035 | 56 | 22 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 2074 | 1996 | 1991 | 84 | 6 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 2037 | 1961 | 1949 | 89 | 13 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 2020 | 1945 | 1947 | 73 | 2 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 2004 | 1930 | 1906 | 98 | 24 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 1993 | 1919 | 1892 | 101 | 27 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 1981 | 1908 | 1903 | 78 | 5 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 1965 | 1893 | 1901 | 64 | 8 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 1981 | 1908 | 1895 | 86 | 13 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 1980 | 1907 | 1892 | 88 | 15 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 1985 | 1912 | 1881 | 104 | 31 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 2001 | 1927 | 1877 | 124 | 50 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 1993 | 1919 | 1880 | 113 | 39 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 1992 | 1918 | 1882 | 110 | 36 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 1991 | 1917 | 1887 | 104 | 31 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 1976 | 1903 | 1877 | 99 | 26 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 1955 | 1883 | 1879 | 76 | 5 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 1951 | 1879 | 1880 | 70 | 1 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 1949 | 1877 | 1882 | 66 | 5 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 1951 | 1879 | 1867 | 84 | 13 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 1951 | 1879 | 1860 | 91 | 19 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 1971 | 1899 | 1861 | 110 | 38 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 1990 | 1916 | 1870 | 120 | 46 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 2009 | 1934 | 1900 | 109 | 34 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 2041 | 1964 | 1954 | 86 | 10 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 2079 | 2001 | 1983 | 96 | 18 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 2128 | 2048 | 2022 | 106 | 26 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 2178 | 2095 | 2094 | 84 | 1 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 2278 | 2190 | 2205 | 73 | 15 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 2455 | 2357 | 2406 | 49 | 48 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 2645 | 2537 | 2564 | 80 | 27 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 2742 | 2630 | 2652 | 90 | 22 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 2746 | 2634 | 2675 | 71 | 41 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 2727 | 2616 | 2662 | 64 | 47 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 2689 | 2579 | 2625 | 64 | 46 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 2670 | 2561 | 2590 | 80 | 29 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 2649 | 2542 | 2581 | 68 | 39 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 2633 | 2526 | 2567 | 66 | 41 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 2610 | 2505 | 2561 | 49 | 56 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 2584 | 2480 | 2537 | 47 | 58 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 2561 | 2458 | 2502 | 60 | 43 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 2541 | 2440 | 2486 | 55 | 47 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 2510 | 2410 | 2465 | 46 | 55 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 2475 | 2377 | 2433 | 42 | 56 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 2443 | 2346 | 2383 | 59 | 38 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 2401 | 2306 | 2352 | 49 | 46 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 2348 | 2256 | 2310 | 38 | 54 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 2288 | 2199 | 2238 | 51 | 38 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 2220 | 2135 | 2178 | 42 | 43 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 2153 | 2071 | 2160 | 7 | 89 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 2088 | 2010 | 2097 | 8 | 87 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 2042 | 1966 | 2017 | 25 | 51 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 1988 | 1914 | 1972 | 16 | 57 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 1940 | 1869 | 1913 | 27 | 44 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 1886 | 1817 | 1854 | 31 | 37 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1834 | 1821 | 1812 | 22 | 10 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1789 | 1777 | 1757 | 32 | 20 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1745 | 1734 | 1710 | 34 | 24 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1707 | 1697 | 1674 | 32 | 23 |

अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले दिन और इट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग का त्रुटे

| दिनांक: 12/1/2024 | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग (A) | इट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग (B) | वास्तविक मांग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटे (D) = (C) - (A) | इट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटे (E) = (C) - (B) |
|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 85 | 87 | 99 | 14 | 12 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 84 | 86 | 99 | 15 | 13 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 84 | 86 | 101 | 17 | 15 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 82 | 84 | 99 | 17 | 14 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 81 | 87 | 96 | 15 | 10 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 80 | 86 | 97 | 16 | 11 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 79 | 85 | 92 | 12 | 7 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 79 | 84 | 92 | 13 | 8 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 78 | 86 | 92 | 14 | 6 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 77 | 85 | 90 | 13 | 5 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 76 | 84 | 91 | 16 | 8 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 75 | 83 | 90 | 15 | 7 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 76 | 86 | 88 | 12 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 77 | 87 | 93 | 16 | 6 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 78 | 88 | 90 | 13 | 3 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 78 | 88 | 91 | 13 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 79 | 90 | 89 | 11 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 79 | 91 | 90 | 11 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 80 | 92 | 93 | 13 | 1 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 82 | 94 | 93 | 12 | 0 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 83 | 95 | 95 | 12 | 0 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 85 | 98 | 95 | 10 | 3 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 88 | 101 | 101 | 13 | 0 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 92 | 105 | 104 | 12 | 2 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 96 | 110 | 108 | 12 | 2 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 102 | 117 | 116 | 14 | 1 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 109 | 125 | 112 | 3 | 13 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 114 | 131 | 118 | 4 | 13 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 117 | 135 | 126 | 8 | 9 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 118 | 136 | 128 | 9 | 8 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 119 | 136 | 127 | 9 | 8 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 118 | 136 | 124 | 6 | 11 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 117 | 131 | 125 | 7 | 6 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 115 | 129 | 125 | 9 | 4 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 113 | 127 | 124 | 10 | 3 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 112 | 125 | 123 | 12 | 2 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 110 | 123 | 120 | 10 | 3 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 108 | 121 | 110 | 2 | 11 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 106 | 119 | 101 | 5 | 18 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 105 | 117 | 102 | 3 | 15 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 104 | 114 | 103 | 2 | 11 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 103 | 113 | 101 | 3 | 12 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 103 | 112 | 101 | 1 | 11 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 103 | 112 | 99 | 4 | 13 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 103 | 108 | 98 | 5 | 10 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 103 | 108 | 93 | 10 | 14 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 103 | 107 | 96 | 6 | 11 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 102 | 107 | 95 | 7 | 12 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 102 | 103 | 93 | 9 | 10 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 102 | 103 | 97 | 5 | 6 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 102 | 103 | 96 | 6 | 7 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 102 | 103 | 95 | 7 | 8 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 101 | 99 | 95 | 6 | 4 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 102 | 100 | 94 | 8 | 6 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 102 | 100 | 95 | 8 | 6 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 104 | 102 | 98 | 6 | 4 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 104 | 100 | 98 | 6 | 2 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 106 | 102 | 99 | 6 | 2 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 107 | 103 | 98 | 9 | 5 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 108 | 104 | 99 | 9 | 5 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 107 | 103 | 98 | 9 | 5 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 107 | 103 | 101 | 6 | 2 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 107 | 103 | 104 | 3 | 1 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 109 | 105 | 105 | 4 | 0 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 111 | 107 | 111 | 0 | 4 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 115 | 111 | 114 | 1 | 3 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 122 | 118 | 128 | 6 | 11 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 130 | 125 | 133 | 3 | 8 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 137 | 132 | 135 | 2 | 3 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 141 | 136 | 142 | 0 | 6 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 144 | 139 | 145 | 1 | 6 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 145 | 140 | 149 | 4 | 9 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 147 | 144 | 144 | 2 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 148 | 145 | 150 | 2 | 5 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 148 | 145 | 149 | 1 | 4 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 147 | 143 | 147 | 1 | 4 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 146 | 142 | 147 | 1 | 4 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 147 | 143 | 146 | 1 | 3 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 147 | 144 | 145 | 2 | 1 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 146 | 143 | 145 | 1 | 2 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 143 | 140 | 141 | 2 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 141 | 138 | 136 | 5 | 2 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 139 | 136 | 140 | 1 | 4 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 138 | 135 | 136 | 1 | 2 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 135 | 132 | 129 | 6 | 3 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 131 | 128 | 131 | 0 | 3 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 126 | 124 | 126 | 0 | 3 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 121 | 119 | 125 | 4 | 7 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 117 | 114 | 120 | 3 | 6 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 112 | 110 | 118 | 6 | 8 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 108 | 106 | 113 | 5 | 7 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 106 | 104 | 110 | 4 | 6 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 102 | 102 | 107 | 5 | 6 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 100 | 99 | 105 | 5 | 6 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 96 | 95 | 102 | 7 | 7 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 94 | 93 | 101 | 7 | 8 |

असम के लिए अगले दिन आर इट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि

दिनांक:

12/1/2024

| तिथि और समय | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग (A) | इट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग (B) | वास्तविक मांग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (D) = (C) - (A) | इट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (E) = (C) - (B) |
|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1039 | 1036 | 1010 | 29 | 26 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1022 | 1019 | 996 | 26 | 23 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1006 | 1003 | 978 | 28 | 25 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 995 | 993 | 963 | 32 | 30 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 984 | 982 | 960 | 24 | 21 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 972 | 969 | 946 | 26 | 23 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 971 | 968 | 940 | 31 | 28 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 959 | 957 | 929 | 30 | 27 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 946 | 944 | 918 | 29 | 26 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 940 | 937 | 917 | 22 | 20 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 932 | 929 | 901 | 31 | 28 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 926 | 924 | 894 | 32 | 30 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 915 | 913 | 884 | 31 | 29 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 907 | 904 | 884 | 23 | 20 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 903 | 900 | 876 | 26 | 24 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 901 | 898 | 873 | 27 | 25 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 900 | 897 | 883 | 17 | 14 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 903 | 900 | 891 | 12 | 9 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 912 | 910 | 896 | 17 | 14 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 923 | 920 | 914 | 9 | 6 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 934 | 932 | 920 | 15 | 12 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 945 | 943 | 938 | 7 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 958 | 956 | 938 | 20 | 17 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 993 | 990 | 971 | 22 | 19 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1038 | 1035 | 995 | 42 | 40 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1064 | 1061 | 1025 | 39 | 66 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 1120 | 1147 | 1064 | 56 | 83 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 1149 | 1176 | 1112 | 38 | 65 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 1166 | 1137 | 1131 | 35 | 7 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 1178 | 1149 | 1141 | 37 | 8 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 1170 | 1142 | 1155 | 15 | 14 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 1166 | 1137 | 1149 | 17 | 12 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 1162 | 1133 | 1147 | 14 | 14 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 1148 | 1121 | 1135 | 13 | 14 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 1143 | 1116 | 1128 | 16 | 12 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 1129 | 1102 | 1124 | 4 | 22 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 1113 | 1087 | 1107 | 6 | 20 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 1126 | 1100 | 1097 | 30 | 3 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 1129 | 1102 | 1079 | 50 | 23 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 1109 | 1083 | 1059 | 49 | 23 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 1107 | 1082 | 1057 | 50 | 24 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 1110 | 1084 | 1045 | 65 | 39 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 1113 | 1088 | 1038 | 76 | 50 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 1112 | 1086 | 1049 | 63 | 37 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 1098 | 1039 | 1056 | 41 | 17 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 1116 | 1056 | 1064 | 52 | 9 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 1117 | 1057 | 1059 | 58 | 2 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 1126 | 1065 | 1046 | 80 | 19 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 1141 | 1079 | 1056 | 85 | 23 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 1132 | 1071 | 1055 | 78 | 16 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 1129 | 1068 | 1060 | 70 | 8 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 1129 | 1068 | 1065 | 65 | 4 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 1117 | 1057 | 1061 | 57 | 3 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 1098 | 1039 | 1057 | 41 | 18 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 1095 | 1036 | 1055 | 39 | 19 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 1090 | 1032 | 1044 | 46 | 12 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 1088 | 1030 | 1033 | 55 | 3 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 1078 | 1021 | 1015 | 64 | 6 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 1088 | 1030 | 1002 | 86 | 28 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 1093 | 1035 | 1004 | 89 | 31 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 1099 | 1040 | 1020 | 79 | 20 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 1113 | 1053 | 1027 | 85 | 25 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 1129 | 1068 | 1043 | 86 | 25 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 1150 | 1087 | 1062 | 88 | 25 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 1168 | 1104 | 1099 | 69 | 5 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 1224 | 1155 | 1171 | 53 | 16 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 1340 | 1262 | 1300 | 40 | 38 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 1465 | 1378 | 1387 | 78 | 10 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 1521 | 1429 | 1450 | 71 | 21 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 1512 | 1421 | 1449 | 63 | 28 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 1502 | 1411 | 1444 | 57 | 33 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 1474 | 1386 | 1424 | 50 | 38 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 1465 | 1378 | 1419 | 46 | 41 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 1456 | 1369 | 1420 | 36 | 51 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 1453 | 1366 | 1415 | 37 | 49 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 1446 | 1360 | 1415 | 31 | 55 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 1433 | 1361 | 1400 | 33 | 40 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 1425 | 1353 | 1393 | 32 | 40 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 1419 | 1348 | 1389 | 30 | 41 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 1406 | 1335 | 1379 | 27 | 43 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 1389 | 1333 | 1364 | 26 | 31 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 1376 | 1320 | 1337 | 39 | 17 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 1355 | 1300 | 1320 | 34 | 20 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 1325 | 1273 | 1299 | 27 | 26 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 1292 | 1241 | 1259 | 33 | 18 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 1255 | 1207 | 1223 | 32 | 16 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 1220 | 1174 | 1225 | 5 | 52 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 1189 | 1144 | 1195 | 7 | 51 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 1173 | 1130 | 1145 | 27 | 16 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 1148 | 1106 | 1111 | 37 | 5 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 1126 | 1085 | 1075 | 51 | 11 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 1095 | 1057 | 1043 | 52 | 13 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1067 | 1030 | 1020 | 47 | 10 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1041 | 1005 | 986 | 55 | 19 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1015 | 982 | 959 | 57 | 23 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 992 | 960 | 934 | 59 | 26 |

माणपुर के लिए अगले दिन और इट्टा-डे पूर्वानुमानित माग की त्रुटे

| दिनांक: 12/1/2024 | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग (A) | इट्टा-डे पूर्वानुमानित मांग (B) | वास्तविक मांग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटे (D) = (C) - (A) | इट्टा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटे (E) = (C) - (B) |
|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 78 | 82 | 78 | 0 | 4 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 77 | 81 | 77 | 1 | 3 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 75 | 79 | 78 | 2 | 1 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 74 | 77 | 76 | 2 | 1 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 72 | 76 | 75 | 2 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 72 | 76 | 76 | 4 | 0 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 71 | 75 | 75 | 4 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 71 | 75 | 75 | 3 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 71 | 75 | 75 | 4 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 71 | 74 | 75 | 4 | 0 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 71 | 74 | 74 | 4 | 0 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 70 | 74 | 75 | 5 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 70 | 74 | 73 | 3 | 0 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 70 | 74 | 75 | 4 | 1 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 71 | 74 | 75 | 5 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 72 | 75 | 76 | 5 | 1 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 74 | 77 | 78 | 5 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 76 | 80 | 82 | 6 | 2 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 80 | 84 | 84 | 5 | 1 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 86 | 90 | 88 | 3 | 1 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 94 | 98 | 93 | 1 | 6 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 105 | 110 | 102 | 3 | 8 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 119 | 124 | 116 | 3 | 9 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 135 | 141 | 135 | 1 | 6 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 152 | 159 | 153 | 2 | 6 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 167 | 175 | 169 | 2 | 6 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 179 | 187 | 177 | 2 | 11 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 185 | 194 | 183 | 2 | 11 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 187 | 193 | 185 | 2 | 8 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 187 | 193 | 186 | 1 | 7 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 187 | 193 | 188 | 1 | 5 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 184 | 190 | 191 | 6 | 0 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 181 | 187 | 189 | 8 | 2 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 175 | 181 | 187 | 12 | 6 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 171 | 176 | 185 | 14 | 9 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 165 | 171 | 177 | 12 | 6 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 162 | 167 | 166 | 5 | 1 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 157 | 162 | 162 | 5 | 1 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 152 | 157 | 161 | 8 | 3 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 148 | 153 | 157 | 9 | 4 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 144 | 149 | 148 | 4 | 1 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 140 | 145 | 146 | 6 | 2 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 136 | 140 | 145 | 10 | 5 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 131 | 135 | 143 | 12 | 8 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 128 | 132 | 140 | 12 | 7 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 125 | 129 | 129 | 4 | 0 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 121 | 125 | 126 | 5 | 1 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 116 | 120 | 123 | 7 | 3 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 113 | 116 | 121 | 9 | 5 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 111 | 115 | 114 | 2 | 1 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 111 | 114 | 113 | 2 | 2 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 111 | 114 | 113 | 2 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 110 | 114 | 113 | 2 | 2 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 111 | 115 | 112 | 1 | 3 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 112 | 116 | 112 | 0 | 4 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 113 | 117 | 114 | 1 | 3 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 114 | 118 | 116 | 1 | 2 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 115 | 119 | 117 | 2 | 2 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 118 | 122 | 120 | 2 | 2 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 122 | 126 | 122 | 0 | 4 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 127 | 131 | 126 | 1 | 5 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 132 | 137 | 136 | 3 | 1 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 139 | 143 | 143 | 5 | 0 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 146 | 151 | 144 | 2 | 7 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 155 | 160 | 157 | 3 | 2 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 166 | 172 | 172 | 6 | 1 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 182 | 188 | 189 | 7 | 1 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 197 | 204 | 210 | 13 | 6 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 206 | 212 | 222 | 16 | 10 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 206 | 213 | 227 | 21 | 14 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 202 | 208 | 224 | 23 | 16 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 194 | 200 | 213 | 19 | 12 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 189 | 195 | 194 | 5 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 184 | 190 | 190 | 6 | 0 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 182 | 188 | 187 | 5 | 1 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 178 | 184 | 185 | 6 | 1 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 176 | 182 | 181 | 5 | 0 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 172 | 177 | 171 | 1 | 6 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 167 | 172 | 167 | 1 | 5 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 161 | 166 | 163 | 2 | 3 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 156 | 161 | 158 | 2 | 3 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 149 | 154 | 149 | 1 | 5 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 142 | 147 | 145 | 3 | 2 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 136 | 140 | 141 | 6 | 1 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 129 | 133 | 132 | 3 | 1 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 122 | 126 | 123 | 1 | 3 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 116 | 120 | 117 | 1 | 2 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 110 | 114 | 110 | 1 | 4 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 105 | 109 | 103 | 2 | 6 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 100 | 104 | 98 | 3 | 6 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 97 | 100 | 96 | 1 | 4 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 93 | 96 | 87 | 6 | 9 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 89 | 90 | 84 | 5 | 6 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 86 | 88 | 82 | 4 | 6 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 85 | 86 | 81 | 3 | 5 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 83 | 84 | 80 | 3 | 4 |

महालय के लिए अगले दिन और इट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग को त्रुटि

| दिनांक: | | 12/1/2024 | | | | |
|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| तिथि और समय | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग (A) | इट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग (B) | वास्तविक मांग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (D) = (C) - (A) | इट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (E) = (C) - (B) |
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 220 | 225 | 231 | 10 | 6 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 215 | 219 | 225 | 11 | 6 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 210 | 215 | 220 | 10 | 6 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 209 | 213 | 218 | 10 | 6 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 208 | 212 | 221 | 13 | 9 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 207 | 212 | 217 | 9 | 5 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 206 | 210 | 215 | 9 | 5 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 204 | 208 | 213 | 8 | 4 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 202 | 206 | 209 | 7 | 3 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 201 | 205 | 209 | 7 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 201 | 205 | 206 | 5 | 1 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 202 | 206 | 207 | 5 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 201 | 206 | 208 | 6 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 201 | 205 | 205 | 5 | 1 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 201 | 205 | 206 | 5 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 202 | 206 | 208 | 6 | 2 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 203 | 208 | 209 | 6 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 205 | 210 | 209 | 4 | 0 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 207 | 212 | 212 | 5 | 1 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 209 | 213 | 214 | 4 | 0 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 212 | 216 | 215 | 3 | 1 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 216 | 221 | 223 | 6 | 2 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 225 | 230 | 227 | 2 | 3 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 238 | 243 | 232 | 6 | 11 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 253 | 258 | 247 | 6 | 11 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 270 | 276 | 262 | 9 | 14 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 286 | 292 | 275 | 11 | 17 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 300 | 306 | 286 | 14 | 20 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 307 | 314 | 292 | 16 | 22 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 311 | 318 | 298 | 13 | 19 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 312 | 319 | 302 | 10 | 17 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 311 | 317 | 302 | 8 | 14 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 308 | 308 | 298 | 10 | 10 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 304 | 304 | 297 | 6 | 7 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 299 | 300 | 292 | 7 | 7 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 295 | 296 | 296 | 0 | 0 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 292 | 292 | 297 | 5 | 5 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 289 | 289 | 296 | 7 | 6 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 286 | 286 | 288 | 2 | 2 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 283 | 284 | 275 | 8 | 9 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 280 | 281 | 277 | 3 | 3 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 277 | 278 | 266 | 11 | 12 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 274 | 274 | 264 | 9 | 10 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 270 | 270 | 264 | 6 | 6 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 267 | 267 | 261 | 6 | 6 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 265 | 265 | 260 | 5 | 5 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 265 | 266 | 257 | 9 | 9 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 265 | 266 | 253 | 12 | 13 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 265 | 266 | 247 | 18 | 19 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 264 | 264 | 251 | 13 | 13 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 262 | 262 | 248 | 14 | 15 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 261 | 261 | 249 | 12 | 12 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 259 | 256 | 243 | 17 | 13 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 258 | 254 | 246 | 12 | 8 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 256 | 252 | 245 | 10 | 7 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 255 | 251 | 245 | 10 | 6 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 255 | 252 | 244 | 11 | 8 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 256 | 253 | 244 | 12 | 9 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 259 | 255 | 245 | 13 | 10 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 262 | 258 | 245 | 17 | 13 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 267 | 263 | 248 | 19 | 15 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 271 | 267 | 255 | 16 | 12 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 276 | 272 | 256 | 20 | 16 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 281 | 277 | 262 | 19 | 15 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 288 | 279 | 273 | 15 | 6 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 296 | 287 | 283 | 14 | 5 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 306 | 297 | 295 | 11 | 2 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 318 | 308 | 312 | 6 | 4 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 327 | 317 | 316 | 11 | 1 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 335 | 325 | 320 | 15 | 5 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 337 | 327 | 324 | 13 | 3 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 341 | 330 | 326 | 15 | 4 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 341 | 330 | 329 | 12 | 2 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 339 | 329 | 325 | 14 | 3 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 335 | 325 | 322 | 14 | 3 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 331 | 321 | 318 | 13 | 3 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 328 | 318 | 315 | 13 | 3 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 324 | 314 | 308 | 16 | 6 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 320 | 310 | 307 | 13 | 3 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 316 | 306 | 302 | 14 | 5 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 313 | 304 | 302 | 11 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 312 | 302 | 299 | 13 | 3 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 310 | 301 | 293 | 17 | 8 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 307 | 298 | 291 | 16 | 7 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 302 | 293 | 290 | 13 | 3 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 295 | 286 | 285 | 11 | 2 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 288 | 279 | 280 | 7 | 1 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 279 | 271 | 269 | 10 | 1 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 272 | 263 | 264 | 8 | 1 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 264 | 256 | 268 | 3 | 11 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 258 | 250 | 265 | 7 | 14 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 252 | 245 | 261 | 9 | 17 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 246 | 238 | 256 | 10 | 17 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 240 | 233 | 248 | 9 | 16 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 235 | 228 | 242 | 7 | 15 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 231 | 224 | 240 | 9 | 16 |

मिज़ोरम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि

| दिनांक: 12/1/2024 | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग (B) | वास्तविक मांग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (E) = (C) - (B) |
|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|---|
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 56 | 50 | 47 | 9 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 54 | 48 | 45 | 8 | 2 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 51 | 46 | 44 | 7 | 2 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 49 | 44 | 43 | 7 | 1 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 48 | 43 | 39 | 9 | 4 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 47 | 42 | 37 | 10 | 5 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 46 | 41 | 38 | 8 | 3 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 45 | 40 | 38 | 8 | 3 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 45 | 39 | 38 | 7 | 2 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 45 | 39 | 37 | 8 | 2 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 45 | 39 | 37 | 8 | 2 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 44 | 38 | 36 | 8 | 2 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 43 | 37 | 36 | 8 | 1 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 42 | 36 | 34 | 8 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 42 | 36 | 35 | 7 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 42 | 36 | 36 | 6 | 0 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 42 | 36 | 36 | 6 | 0 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 42 | 36 | 36 | 7 | 0 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 43 | 36 | 36 | 7 | 1 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 43 | 37 | 36 | 7 | 1 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 45 | 39 | 37 | 8 | 2 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 49 | 42 | 38 | 11 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 54 | 46 | 42 | 12 | 5 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 61 | 52 | 46 | 15 | 6 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 70 | 60 | 51 | 19 | 9 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 79 | 67 | 58 | 21 | 10 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 87 | 74 | 66 | 20 | 8 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 94 | 80 | 72 | 23 | 9 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 100 | 82 | 78 | 22 | 4 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 105 | 86 | 83 | 21 | 3 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 107 | 88 | 91 | 17 | 3 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 107 | 88 | 97 | 10 | 9 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 106 | 89 | 101 | 5 | 12 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 103 | 86 | 106 | 3 | 19 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 101 | 84 | 102 | 1 | 17 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 97 | 81 | 98 | 1 | 17 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 94 | 82 | 92 | 2 | 10 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 90 | 79 | 90 | 1 | 11 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 87 | 75 | 85 | 2 | 10 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 83 | 72 | 79 | 4 | 6 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 80 | 72 | 73 | 8 | 0 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 78 | 70 | 68 | 10 | 2 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 76 | 69 | 65 | 11 | 3 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 75 | 67 | 65 | 10 | 3 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 74 | 66 | 66 | 9 | 0 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 75 | 66 | 66 | 9 | 0 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 76 | 68 | 67 | 9 | 1 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 78 | 69 | 70 | 8 | 1 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 79 | 70 | 72 | 7 | 2 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 78 | 70 | 73 | 5 | 4 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 79 | 70 | 73 | 6 | 3 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 78 | 70 | 73 | 6 | 3 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 78 | 70 | 71 | 8 | 1 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 79 | 70 | 72 | 7 | 2 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 79 | 70 | 74 | 5 | 3 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 81 | 72 | 75 | 6 | 3 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 83 | 73 | 77 | 6 | 3 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 86 | 76 | 79 | 7 | 3 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 89 | 79 | 81 | 8 | 2 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 94 | 83 | 87 | 7 | 4 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 99 | 88 | 94 | 5 | 6 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 104 | 93 | 98 | 6 | 6 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 108 | 96 | 101 | 7 | 5 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 111 | 99 | 103 | 9 | 4 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 114 | 101 | 102 | 12 | 1 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 117 | 104 | 104 | 13 | 0 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 120 | 107 | 107 | 13 | 0 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 124 | 110 | 110 | 13 | 0 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 124 | 110 | 111 | 13 | 1 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 123 | 109 | 110 | 13 | 1 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 120 | 107 | 107 | 13 | 0 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 118 | 105 | 103 | 15 | 2 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 115 | 103 | 101 | 14 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 113 | 101 | 100 | 14 | 1 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 112 | 99 | 98 | 13 | 1 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 110 | 98 | 95 | 15 | 3 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 108 | 96 | 94 | 14 | 2 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 106 | 94 | 93 | 13 | 1 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 104 | 93 | 92 | 12 | 0 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 103 | 92 | 92 | 11 | 1 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 103 | 91 | 93 | 10 | 2 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 101 | 89 | 91 | 10 | 2 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 98 | 87 | 89 | 9 | 2 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 95 | 85 | 87 | 8 | 2 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 92 | 82 | 83 | 10 | 1 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 89 | 79 | 80 | 10 | 0 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 86 | 77 | 76 | 10 | 1 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 83 | 74 | 73 | 10 | 0 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 79 | 70 | 69 | 10 | 1 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 75 | 66 | 65 | 9 | 1 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 71 | 63 | 62 | 9 | 1 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 67 | 59 | 59 | 8 | 0 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 64 | 57 | 56 | 7 | 0 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 61 | 54 | 53 | 8 | 1 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 58 | 52 | 51 | 8 | 1 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 56 | 50 | 49 | 8 | 2 |
|----|---------------|----|----|----|---|---|

नागालैंड के लिए अगले दिन और इट्रा-ड पूर्वानुमानित मांग का त्रुटि

| दिनांक: 12/1/2024 | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग (A) | इट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग (B) | वास्तविक मांग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (D) = (C) - (A) | इट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि (E) = (C) - (B) |
|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 69 | 76 | 75 | 7 | 0 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 67 | 74 | 66 | 2 | 9 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 66 | 73 | 62 | 5 | 11 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 65 | 72 | 61 | 4 | 11 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 65 | 69 | 70 | 4 | 0 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 65 | 69 | 74 | 9 | 5 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 65 | 69 | 70 | 5 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 65 | 69 | 69 | 4 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 65 | 68 | 68 | 3 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 65 | 67 | 68 | 3 | 0 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 65 | 67 | 69 | 4 | 1 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 65 | 67 | 69 | 4 | 2 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 65 | 67 | 68 | 4 | 1 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 65 | 68 | 69 | 3 | 1 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 66 | 68 | 69 | 3 | 0 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 67 | 69 | 67 | 0 | 2 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 69 | 72 | 56 | 13 | 16 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 72 | 75 | 58 | 14 | 17 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 76 | 78 | 60 | 16 | 19 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 81 | 84 | 62 | 19 | 22 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 89 | 86 | 66 | 22 | 20 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 100 | 97 | 72 | 27 | 24 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 109 | 106 | 81 | 28 | 25 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 117 | 113 | 93 | 23 | 20 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 123 | 119 | 105 | 18 | 14 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 130 | 126 | 114 | 17 | 13 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 139 | 135 | 120 | 19 | 15 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 144 | 140 | 138 | 6 | 2 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 144 | 134 | 145 | 1 | 12 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 139 | 129 | 137 | 3 | 7 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 135 | 125 | 131 | 4 | 6 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 131 | 122 | 125 | 6 | 3 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 126 | 119 | 129 | 3 | 10 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 120 | 113 | 124 | 4 | 11 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 115 | 108 | 123 | 8 | 15 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 112 | 106 | 118 | 6 | 12 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 109 | 105 | 112 | 2 | 6 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 106 | 102 | 105 | 0 | 3 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 102 | 98 | 103 | 1 | 5 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 99 | 96 | 102 | 2 | 6 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 98 | 97 | 104 | 6 | 7 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 96 | 94 | 97 | 1 | 2 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 95 | 93 | 98 | 3 | 5 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 93 | 92 | 102 | 8 | 10 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 95 | 95 | 99 | 4 | 4 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 97 | 97 | 102 | 5 | 5 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 97 | 97 | 107 | 10 | 10 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 96 | 96 | 105 | 9 | 9 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 94 | 97 | 103 | 9 | 7 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 96 | 98 | 103 | 7 | 5 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 98 | 100 | 104 | 7 | 4 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 99 | 102 | 100 | 1 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 100 | 100 | 102 | 3 | 2 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 100 | 100 | 107 | 7 | 7 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 100 | 101 | 110 | 9 | 9 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 104 | 105 | 119 | 15 | 14 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 108 | 111 | 115 | 6 | 4 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 113 | 115 | 122 | 9 | 6 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 115 | 118 | 128 | 13 | 10 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 117 | 120 | 132 | 15 | 13 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 118 | 123 | 132 | 14 | 8 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 121 | 127 | 135 | 13 | 8 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 127 | 133 | 136 | 9 | 3 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 135 | 141 | 136 | 1 | 5 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 141 | 145 | 136 | 5 | 9 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 148 | 152 | 138 | 10 | 14 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 156 | 160 | 143 | 13 | 17 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 162 | 167 | 146 | 16 | 21 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 162 | 162 | 148 | 14 | 14 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 157 | 158 | 146 | 12 | 12 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 152 | 152 | 135 | 17 | 17 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 149 | 150 | 132 | 18 | 18 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 147 | 142 | 129 | 19 | 14 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 145 | 140 | 122 | 24 | 19 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 143 | 138 | 124 | 19 | 14 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 140 | 135 | 126 | 13 | 9 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 137 | 127 | 129 | 8 | 1 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 133 | 124 | 123 | 11 | 2 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 130 | 122 | 118 | 12 | 3 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 126 | 118 | 116 | 11 | 2 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 122 | 113 | 112 | 9 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 117 | 109 | 113 | 4 | 4 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 113 | 105 | 106 | 6 | 1 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 108 | 101 | 101 | 7 | 0 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 103 | 96 | 94 | 10 | 3 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 98 | 92 | 90 | 9 | 2 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 94 | 88 | 94 | 0 | 6 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 89 | 83 | 87 | 2 | 4 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 86 | 80 | 85 | 1 | 5 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 83 | 77 | 87 | 4 | 9 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 80 | 75 | 83 | 2 | 8 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 78 | 73 | 80 | 2 | 7 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 76 | 73 | 78 | 2 | 5 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 74 | 71 | 75 | 1 | 4 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 73 | 69 | 73 | 0 | 4 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 71 | 68 | 72 | 1 | 4 |

त्रिपुरा के लिए अगले दिन और इट्रा-डे पूर्वानुमानित माग को त्रुटे

| दिनांक: 12/1/2024 | | अगले दिन की पूर्वानुमानित माग (A) | इट्रा-डे पूर्वानुमानित माग (B) | वास्तविक माग (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित माग की त्रुटे (D) = (C) - (A) | इट्रा-डे की पूर्वानुमानित माग की त्रुटे (E) = (C) - (B) |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---|---|
| ब्लॉक | अवधि | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 168 | 161 | 158 | 11 | 3 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 165 | 158 | 159 | 5 | 2 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 162 | 155 | 158 | 5 | 2 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 159 | 152 | 158 | 1 | 6 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 156 | 149 | 155 | 1 | 5 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 154 | 147 | 152 | 2 | 5 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 153 | 146 | 153 | 0 | 7 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 151 | 145 | 149 | 3 | 4 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 150 | 143 | 145 | 5 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 149 | 142 | 144 | 4 | 2 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 148 | 141 | 142 | 6 | 0 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 147 | 140 | 139 | 8 | 2 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 146 | 140 | 134 | 12 | 6 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 146 | 140 | 135 | 11 | 4 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 147 | 141 | 139 | 8 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 147 | 141 | 144 | 3 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 147 | 141 | 140 | 7 | 0 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 147 | 141 | 141 | 7 | 0 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 148 | 141 | 145 | 3 | 4 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 148 | 142 | 145 | 3 | 3 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 148 | 142 | 148 | 0 | 6 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 148 | 141 | 147 | 1 | 5 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 148 | 142 | 143 | 6 | 1 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 151 | 144 | 146 | 5 | 1 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 157 | 150 | 146 | 11 | 4 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 167 | 160 | 153 | 15 | 7 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 178 | 170 | 158 | 20 | 12 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 187 | 179 | 165 | 22 | 14 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 196 | 187 | 169 | 27 | 18 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 204 | 195 | 172 | 32 | 23 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 210 | 201 | 175 | 36 | 26 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 214 | 205 | 174 | 40 | 31 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 217 | 200 | 175 | 41 | 24 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 218 | 201 | 176 | 43 | 26 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 219 | 202 | 176 | 43 | 26 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 218 | 200 | 178 | 39 | 22 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 216 | 190 | 174 | 42 | 16 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 214 | 189 | 175 | 39 | 13 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 213 | 187 | 174 | 39 | 13 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 210 | 185 | 175 | 35 | 9 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 206 | 176 | 185 | 20 | 9 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 200 | 171 | 184 | 17 | 12 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 196 | 168 | 179 | 17 | 12 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 197 | 169 | 182 | 16 | 13 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 200 | 174 | 181 | 19 | 7 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 201 | 175 | 180 | 21 | 5 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 200 | 175 | 180 | 21 | 5 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 203 | 177 | 190 | 13 | 13 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 207 | 180 | 184 | 23 | 4 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 209 | 182 | 187 | 22 | 5 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 211 | 184 | 188 | 23 | 4 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 210 | 183 | 192 | 18 | 9 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 210 | 183 | 193 | 17 | 10 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 209 | 182 | 191 | 17 | 9 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 207 | 180 | 190 | 17 | 10 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 203 | 177 | 189 | 14 | 12 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 199 | 173 | 185 | 14 | 12 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 196 | 171 | 184 | 13 | 13 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 195 | 170 | 185 | 10 | 15 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 194 | 169 | 182 | 13 | 12 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 192 | 171 | 183 | 10 | 12 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 192 | 171 | 202 | 10 | 31 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 193 | 171 | 200 | 7 | 29 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 196 | 174 | 210 | 14 | 36 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 202 | 186 | 217 | 15 | 31 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 212 | 195 | 224 | 12 | 29 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 228 | 210 | 243 | 15 | 33 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 248 | 228 | 266 | 17 | 37 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 265 | 254 | 270 | 5 | 16 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 272 | 260 | 282 | 10 | 21 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 271 | 259 | 282 | 12 | 23 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 268 | 257 | 279 | 11 | 22 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 265 | 262 | 275 | 9 | 13 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 263 | 260 | 274 | 11 | 14 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 261 | 257 | 272 | 11 | 15 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 258 | 255 | 274 | 16 | 19 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 257 | 258 | 272 | 15 | 14 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 256 | 257 | 268 | 13 | 11 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 254 | 256 | 268 | 14 | 12 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 252 | 253 | 268 | 16 | 15 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 250 | 255 | 263 | 13 | 8 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 247 | 253 | 259 | 12 | 7 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 244 | 249 | 258 | 14 | 9 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 240 | 245 | 256 | 16 | 11 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 235 | 240 | 251 | 17 | 12 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 229 | 234 | 247 | 18 | 13 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 223 | 228 | 241 | 18 | 13 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 217 | 221 | 237 | 20 | 15 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 211 | 215 | 230 | 19 | 15 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 205 | 209 | 224 | 19 | 15 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 199 | 204 | 220 | 21 | 16 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 195 | 199 | 214 | 20 | 15 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 190 | 198 | 211 | 20 | 12 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 187 | 194 | 207 | 20 | 13 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 183 | 190 | 202 | 19 | 12 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 179 | 186 | 199 | 21 | 13 |